

तुरंत रिलीज के लिए

## दूसरे वर्ष के डिजिटल डोर्स ओपन ब्रैम्पटन के साथ हर दरवाजे के पीछे की कहानी जानें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 सितम्बर, 2021) – 27 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक, निवासी और आगंतुक (विजीटर), दूसरे वर्ष के डिजिटल डोर्स ओपन (Digital Doors Open) से, अपने खुद के घरों में ही आराम से, ब्रैम्पटन के इतिहास, विरासत और बेजोड़ सांस्कृतिक जगहों का अनुभव कर सकते हैं।

पूरे प्रांत के इस कार्यक्रम में, ब्रैम्पटन की बहुमूल्य विरासत और हरी-भरी जगहों को दर्शाने वाली, 20 से अधिक जगहों के वर्चुअल (आभासी) टूर, वीडियो और फोटो में हिस्सा लें। कार्यक्रम में इस वर्ष नई विशेषता के तहत, जगहों पर पूरे ब्रैम्पटन में ग्रीन पहलकदमियों, ट्रेल्स, पार्को, बीच, झीलें, कन्जरवेशन क्षेत्रों और ग्रीन नेबरहुड्स वाली बिल्डिंग्स उजागर की जाएंगी। पतझड़ के रंगों का आनंद मानने के लिए बढ़िया जगह ढूँढें और हमारे 2021 नर्चरिंग नेबरहुड्स (Nurturing Neighbourhoods) प्रोग्राम के वर्चुअल (आभासी) टूरों में हिस्सा लें।

पूरे अनुभव के लिए, [brampton.ca/doorsopen](http://brampton.ca/doorsopen) पर जाएं।

ओनटैरियो हेरिटेज ट्रस्ट (Ontario Heritage Trust), अपनी बेजोड़ और सबसे अधिक आकर्षक सांस्कृतिक जगहों के दरवाजे, गेट और कोर्टयार्ड खोलने के लिए, पूरे प्रांत की कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि आप इतिहास और अंदर की कहानियों की पड़ताल कर सकें। विवरणों के लिए, [doorsopenontario.on.ca](http://doorsopenontario.on.ca) पर जाएं।

### हवाले

“बहुमूल्य, सांस्कृतिक विरासत के साथ ब्रैम्पटन एक मोजैक है और मैं हर किसी को दूसरे वर्ष के डिजिटल डोर्स ओपन के लिए इन जगहों का टूर करने की सलाह देता हूँ। यह ऑनलाइन कार्यक्रम, आपको अपने खुद के घरों से आराम से, ब्रैम्पटन की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली जगहों पर जाने का अवसर देता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डिजिटल डोर्स ओपन लोगों को ब्रैम्पटन के आसपास और पूरे प्रांत की जगहों की पड़ताल करने का अवसर देते हुए, बेजोड़ अनुभव प्रदान करता है। ब्रैम्पटन की कुछ सबसे रोचक जगहों के टूर, वीडियो और फोटो के हमारे ऑनलाइन हब पर अवश्य जाएं, जो हमारी ग्रीन पहलकदमियों और आउटडोर जगहों को उजागर करता है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के स्टाफ ने, दूसरे वर्ष के डिजिटल डोर्स ओपन ब्रैम्पटन कार्यक्रम के लिए एक शानदार ऑनलाइन अनुभव तैयार

किया है। शहर के बहुमूल्य इतिहास और सुंदर आउटडोर जगहों का जशन मनाएं और उन जगहों को अंदर से देखें, जो आपने पहले कभी नहीं देखीं। यह ऐसा वर्चुअल कार्यक्रम है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे!"

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)